

SAH POLYMERS LIMITED

www.sahpolymers.com CIN: U24201RJ1992PLC006657

SPL/Stock Exchanges/2023-2024/16

The Manager,

Listing Department,

National Stock Exchange Limited,

'Exchange Plaza', C-1, Block-G

Bandra Kurla Complex

Bandra (E),

Mumbai-400051.

Scrip Code: SAH

May 26, 2023

The Secretary,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001.

Scrip code: 543743

Subject: Submission of Newspaper Publication(s) pursuant to Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company with relevant information.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the requirement of Regulation 30 read with Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclosed herewith the copies of the relevant pages of the advertisements published in the Newspaper regarding completion of dispatch of the notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Sah Polymers Limited ("the Company") to be held on Friday 23rd June, 2023 at 03:00 P.M. and E-Voting Information for the EGM of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The name of the newspapers are:

- 1. English Daily Newspaper: Financial Express
- 2. Hindi Daily Newspaper: Jai Rajasthan

The aforementioned documents shall also be available on the company's website www.sahpolymers.com.

You are requested to take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Sah Polymers Limited

Hakim Sadiq Ali Tidiwala Whole-Time Director DIN:00119156

Enc.: as above



Regd. Office& Factory:

E 260-261, Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur-313003 (Rajasthan)

Tel: 0294-2490242, 9983349242, Tele/Fax: 0294-2490534

E-mail: info@sahpolymers.com

ANISO 9001;2015 Reg. No. RO91/7969

FINANCIAL EXPRESS



ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614]

Regd. Off: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat-131001

Tel.: 0130-2200001 - 06, Fax: 0130-2200018, Website: www.atlasbicycles.com, E-mail- companysecretary@atlascycles.co.in Extracts of Statement of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated)

for the Quarter ended 30th June, 2020

				liva	" III Face av	eht ior ELO			
	Standalone					Consolidated			
DADTICIU ADC	Quarte	r ended	Year ended	Quarter	Year ended				
PARTICULARS	30.06.2020 (unaudited)	30.06.2019 (unaudited)	31.03.2020 Audited	30.06.2020 (unaudited)	30.06.2019 (unaudited)				
Total Income from Operations	157.34	7,247.13	15,590.21	157.34	7,247.13	15,590.21			
"Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or Extraordinary items) "	(817.44)	(1,087.98)	(687.13)	(817.44)	(1,088.08)	(687.66)			
"Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)"	(817.44)	(1,087.98)	(687.13)	(817.44)	(1,088.08)	(687.66)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(817.44)	(876.73)	311.88	(817.44)	(876.83)	311.35			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(817.44)	(876.73)	311.88	(817.44)	(876.83)	311.35			
Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- each)	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19			
"Earning per Share (Face Value of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) "									
Basic	(12.57)	(13.48)	4.80	(12.57)	(13.48)	4.79			
Diluted	(12.57)	(13.48)	4.80	(12.57)	(13.48)	4.79			
				17.	1000				

Notes

- a) The Unaudited standalone and consolidated financial result of the group have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- The Unaudited consolidated financial result includes result of:
- Subsidiaries:
- Atlas Cycles Sonepat Ltd.
- Atlas Cycles (Sahibabad) Ltd. Atlas Cycles (Malanpur) Ltd.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and company's website (www.atlasbicycles.com)
- The aforesaid Un-audited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 24.05.2023. The results for quarter ended on 30th June 2020 have been Reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

For ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

BY THE ORDER OF THE BOARD

JARNAIL SINGH CHAIRPERSON DIN: 05332407

(Rs. In Lacs except for EPS)



Place: New Delhi

Date: 24.05.2023

ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED [Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614]

Regd. Off: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat-131001 Tel.: 0130-2200001 - 06, Fax: 0130-2200018, Website: www.atlasbicycles.com, E-mail- companysecretary@atlascycles.co.in

Extracts of Statement of Un-audited Financial Results(Standalone & Consolidated)

for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2020 (Rs. In Lacs except for EPS)

PARTICULARS			Stan	dalone		Consolidated					
		Quarter ended	Quarter / Half Year ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter / Half Year ended	Quarter ended	Year ended		
		31.12.2020 Unaudited		31.12.2019 Unudited	31.03.2020 Audited	31.12.2020 Unaudited		31.12.2019 Unudited	31.03.2020 Audited		
1	Total Income from Operations	430.11	679.38	5.58	15,590.21	430.11	679.38	5.58	15,590.21		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,										
	Exceptional and/or Extraordinary items) "	(893.75)	(722.85)	(4,201.48)	(687,13)	(896.47)	(722.91)	(4,201.86)	(687.66)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after	7						V.			
	Exceptional and/or Extraordinary items)*	(893.75)	(722.85)	(4,201.48)	(687.13)	(896.47)	(722.91)	(4,201.86)	(687.66)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	23/4202200000		-		S SWILLSON THESE	CH NOW HOUSE		narona		
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(893.75)	(722.85)	(4,368.33)	311.88	(896.47)	(722.91)	(4,368.52)	311.35		
5	Total Comprehensive Income for the period	0.000	200	200		Fig. 1000	100				
	Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and										
	Other Comprehensive Income (after tax)]	(893.75)	(722.85)	(4,368.33)	311.88	(896.47)	(722.91)	(4,368.52)	311.35		
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- each)	325.19	325.19	325.19	325,19	325.19	325.19	325.19	325.19		
7	Earning per Share (Face Value of Rs. 5/- each)										
	(for continuing and discontinued operations)										
	Basic	(13.74)	(11.11)	(67.17)	4.80	(13.78)	(11.12)	(67.17)	4.79		
	Diluted	(13.74)	(11.11)	(67.17)	4.80	(13.78)	(11.12)	(67.17)	4.79		

a) The Un-audited standalone & consolidated financial result of the group have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The un-audited consolidated financial result includes result of: Subsidiaries:

Atlas Cycles Sonepat Ltd.

Atlas Cycles (Sahibabad) Ltd. Atlas Cycles (Malanpur) Ltd.

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and company's website (www.atlasbicycles.com) The aforesaid Un-audited Financial Results for the guarter ended 31st December, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the
- Board of Directors of the company at their meeting held on 24.05.2023. The results for quarter ended on 31st December, 2020 have been Reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

BY THE ORDER OF THE BOARD For ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

> Sd/-JARNAIL SINGH CHAIRPERSON

> > DIN: 05332407

Place: New Delhi Date: 24.05.2023



ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614] Regd. Off: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat-131001

Tel.: 0130-2200001 - 06, Fax: 0130-2200018, Website: www.atlasbicycles.com, E-mail- companysecretary@atlascycles.co.in Extracts of Statement of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated)

for the Quarter/Half year ended 30th September, 2020

_										In Lacs exc	ept for EPS)	
				Standalone			Consolidated					
	PARTICULARS	Quarter ended			Half Year ended	Year ended	Qu	arter ended	Half Year ended	Year		
		30.09,2020 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	30.09.2020 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	30.09.2019 Unaudited		31.03.2020 Audited	
1	Total Income from Operations	679.38	157.34	2,556.73	836.72	15,590.21	679.38	157.34	2,556.73	836.72	15,590.21	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) *	(722.85)	(817.44)	(779.63)	(1,540.29)	(687.13)	(722.91)	(817.44)	(779.73)	(1,540.35)	(687.66)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(722.85)	(817.44)	(779.63)	(1,540.29)	(687.13)	(722.91)	(817.44)	(779.73)	(1,540.35)	(687.66)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(722.85)	(817.44)	(779.63)	(1,540.29)	311.88	(722.91)	(817.44)	(631.46)	(1,540.35)	311.35	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(722.85)	(817.44)	(631.36)	(1,540.29)	311.88	(722.91)	(817.44)	(631.46)	(1.540.35)	311.35	
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- each)	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	
7	Earning per Share (Face Value of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) "											
	Basic Diluted	(11.11) (11.11)	(12.57) (12.57)	(9.71) (9.71)	(23.68) (23.68)	4.80 4.80	(11.12) (11.12)	(12.57) (12.57)	(9.71) (9.71)	(23.68) (23.68)	4.79 4.79	

The Un-audited standalone & consolidated financial result of the group have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The un-audited consolidated financial result includes result of: Subsidiaries:

Atlas Cycles Sonepat Ltd.

Atlas Cycles (Sahibabad) Ltd.

Atlas Cycles (Malanpur) Ltd.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and company's website (www.atlasbicycles.com)

The aforesaid Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 24.05.2023. The results for quarter ended on 30th September 2020 have been Reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

BY THE ORDER OF THE BOARD For ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

JARNAIL SINGH CHAIRPERSON DEMAND NOTICE

Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorise Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount men tioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under: All that piece and parcel of the property being : Prop. No

Guarantor (s) Mr. Vijav Kishan Nigam. 132, Land area admeasuring 4844 sq. ft., Carpet area 23 - May - 2023 admeasuring 5814 sq. ft., Built Up area admeasuring 6840 Mr.Ajay Nigam, Nigam Rs.1,04,20,050/sg. ft., Total R.C.C. Covered area 7515.5 sg. ft., Udvoc Fine Art Co., (Rupees One Crore Four Vihar Extn., Ecotech-2, Greater Noida, Gautam Buddh Mr.Rishabh Nigam, Lakh Twenty Thousand Nagar, 201301, Uttar Pradesh, India Bounded By:North Others Property, South: 18 Mt. Road, East: Property No Mrs.Shakuntla Nigam Fifty Only) (Prospect No 966912) 131, West: Property No. 133 & 134.

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured, assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to our Branch: A-1C & A ID, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Noida. Date: 26-05-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

DEMAND NOTICE

Act. 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorise Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount me tioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under: Name of the Borrower Demand Notice Date Guarantor (s) & Amount All that piece and parcel of the property being: Flat No

Mr.Kapil Muni Mishra 23-May-2023 & Rs.18,20,281/- Sf-3, Carpet area admeasuring 442 sq. ft., Built up area admeasuring 500 sq. ft., Super Built up area admeasurin 540 sq. ft., Rear Lhs, 2Nd Floor, MIG on Plot No - E-40, S Mrs.Seema Devi (Rupees Eighteen Lakh Kartikey Home Furnishing Twenty Thousand Two (Prospect No IL10197728) Ved Vihar, in village Sadullabad, Tehsil Loni, Ghaziabad, U.I Hundred Eighty One Only) All that piece and parcel of the property being Flat No-E Mr.Suraj Singh, Mrs. 23 - May - 2023 Manju, Mr.Rajender Rs.29,38,884/- (Rupees , 1St Floor, Area Ad Measuring 650 Sq. Ft., and Super Bu Up Area Ad Measuring 1075 Sg. Ft., Front LHS (without Roo Singh, M/s Suraj Cyber Twenty Nine Lakh Thirty Rights) , M.I.G Type, in "GAURI KUNJ" situated at Plot No Café (Prospect No Eight Thousand Eight 39. situated at Residential Colony Vikram Enclave, Village IL10148065) Hundred Eighty Four Only) Pasonda, Pargana Loni, Tehsil & Ďistrict Ghaziabad, U.P. all that piece and parcel of the property being: This Mr. Krishan Kumar 23 - May - 2023 Mrs. Poonam (Prospect Rs.23,12,829/- (Rupees Floor (with roof rights) "said floor" built on souther Portion, "said portion" part of Property Bearing no. WZ-No 843436) Twenty Three Lakh Twelve Thousand Eight Hundred 3032, Plot no. 3, Land Area 675 sq. ft., Carpet Area 472 Twenty Nine Only) sq. ft., Super Built-Up Area 590 sq. ft., Khasra no. 289 min., Village- Seelampur Mazra Madipur, abadi San Nagar, Shakur Basti, Delhi, India-110034 23-May-2023 & Rs.20,68,626/- All that piece and parcel of the property being Mr. Kishan (Rupees Twenty Lakh Sixty | Property bearing Plot No. A-1022, Land Area admeasured and the second se Mrs.Annu Eight Thousand Six Hundred
Twenty Six Only) for 969752 & up area admeasuring 606 sq. ft., Situated In The Rs.1,13,370/- (Rupees One Residential Scheme Of Jahangir Puri, Jahangir Puri A M/S Rajender General Mr.Ravi (Prospect No Lakh Thirteen Thousand Three Block, North West Delhi, 110033, Delhi, India 969752 & 977703)

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secure assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to our Branch: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg Najafgarh Road, Beside Jaquar Showroom, Moti Nagar, New Delhi / Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plo No. C -1, Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010/ A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautar Budh Nagar - 201301 or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Place: Delhi/ Noida/ Vaishali, Date: 26-05-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Hundred Seventy Only) for



SAH POLYMERS LIMITED

CIN: U24201RJ1992PLC006657 Registered Office: E-260-261, Mewar Industrial Area, Madri,

Udaipur, Rajasthan-313003, Tel : 0294 2490242 E-Mail: corporate@sahpolymers.com, Website: www.sahpolymers.com NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") EGM no: 01/2023-24 of the Members of SAH POLYMERS LIMITED (the Company') will be held on Friday, the 23rd June 2023 at 03:00 P.M. at the registered office of the Company at E-260-261, Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur-313003 to transact the business as set forth in the Notice of EGM. The Company has sent the Notice of the EGM, only through electronic mode on 25th May 2023, to all

those Members whose email id addresses have been registered with the Company's Registrar & Share

Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Link intime India Private Limited or with their respective Depositary Participants (Depository"), as on the Cutoff date i.e. Friday , June 16 ,2023 in compliance with the circulars (guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities Exchange Board of india (" SEBI Circulars:") The notice of the EGM is also available on the Company's website at www.sahpolymers.com. The Company pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, Members are provided with the remote e-voting facility for enabling them to cast their votes electronically on the resolution proposed at the EGM, through e-voting services of central Depository services India Limited (CDSL) and the details as required pursuant to Rule 20 (4)(v) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 are given here under.

(a) Statement that the business may be All the business resolutions as stated in the transacted by electronic means

Notice calling EGM may be transacted through voting by electronic means.

(b) The date and time of Commencement of Commences on June 20, 2023 at 9:00 am. remote e-voting (c) The date and time of end of remote e-voting | Ends on June 22, 2023, at 5:00 p.m. (d) Cut-off date June 16, 2023

(e) The manner in which persons who have By sending request to CDSL at evoting@cdsl.com acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice may obtain the login 1D and password

(f) The statement that

Date: 25 May 2023

Place : Udaipur

a) remote e-voting shall not be allowed beyond the date on June 22, 2023 at 5:00 pm; b) the Company shall provide voting facility at the EGM through polling to those members who are present at the meeting and have not casted their votes through remote e-voting.; c) a member may participate in EGM even after exercising his right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again in the EGM;

d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM,

(g) Website address of the Company where The Notice of EGM is available on the Company's Website: www.sahpolymers.com : and on CDSL notice of the meeting is displayed evoting Website www.evoting.cdsl.com

(h) Name, designation, address, email id and Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager(CDSL) A Wing, 25 phone number of the person responsible to Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill address the grievances connected with Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), facility for voting by electronic means Mumbai - 400013 or send on email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Members who have not registered their email address are requested to register their Email address by emailing to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Shareholders are advised to go through the instructions for e-voting as provided with the Notice of EGM and in case of any further queries/or grievances in respect voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual of shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com and the URL link is https://www.evotingindia.com/Help.jsp

> By the order of the Board SAH POLYMERS LIMITED Runel Saxena Company Secretary

MONEYBOXX MONEYBOXX FINANCE LIMITED

CIN: L30007DL1994PLC260191

Registered Office: 523-A, Somdutt Chamber-II, 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 Corporate Office: First India Vatika Place, 2nd Floor, Sushant Lok-1, MG Road, Gurgaon-122001, Harvana

Phone No.: 011-45657452, Email Id: info@moneyboxxfinance.com, www.moneyboxxfinance.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rs. in Lacs) S. **Quarter Ended Particulars** Year ended No. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) **Total Income from Operations** 1,319,119 762.177 5.044.027 2,330,600 1.861.847 (374.597) (652.354) Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional 30.711 (154.859) (994.207) and/or Extra-Ordinary items) 3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptiona 30.711 (374.597)(154.859)(994.207)(652.354)and/or Extra-Ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional 41.871 (372.013)(270.048)(42.050)(680.371)and/or Extra-Ordinary items) 5. Paid-up Equity Share Capital (net) 2,492.136 2,340.535 2,159.950 2,492.136 2,159.950 6 2.796.892 1.291.416 5.147.680 Other Equity 5,147.680 1.291.416 Earning Per Share (Face value Rs. 10/-) (a) Basic 0.181 (1.154)(0.206)(2.940)(1.820)

(b) Diluted Notes to the standalone financial results:

> The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and Moneyboxx Finance Limited (www.moneyboxxfinance.com)

0.181

(1.154)

The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on May 25,2023. The Auditors have Audited our financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

> For and on Behalf of Board of Directors of MONEYBOXX FINANCE LIMITED

Date: 25/05/2023 Place: Mumbai

(Deepak Aggarwal)

Whole-time Director

DIN: 03140334

(2.940)

(0.206)

(1.820)

FORM NO. URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of section 366 of the Companies

Act, 2013, an application is proposed to be made after 15 days hereof but before the expiry of 30 days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) that DECENT ENVIRON PRODUCTS LLP (LLPIN:AAX-4504) an LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. The principal objects of the company are To take over the running business of DECENT

ENVIRON PRODUCTS LLP having Pan No.

AASFD5780G relating 1. To manufacture, buy,

sell, import, export or otherwise deal in a Various types of adsorbents like: Activated Carbon Fabric/Felt; Activated Carbon Pellets and Activated Carbon Spheres, which are useful to arrest chemical vapours and noxious Masks with Activated Carbon Fabric/Felt, which is useful for the protection against industrial and city pollutants, c. AC-deo Filters, Refrigerator

De-odouriser and Filter Cartridge with Activated Carbon fabric as per the OEM specifications. d. Exfoliated Graphite and its related products. 2. To carry on the business as job work of Mask, AC-Filters and Refrigerator deodouriser, 3. To carry on the business of manufacturing, buying selling, importing, exporting or otherwise dealing in all types of raw material used in the manufacture of face masks, AC filters and Refrigerator Deodouriser. A copy of the draft Memorandum and Articles

of association of the proposed company may be inspected at the regd. office at S-466 Greater Kailash Part-II New Delhi South Delhi 110048 Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate

their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. For DECENT ENVIRON PRODUCTS LLP

1. RAMESH CHAND SURANA (Designated Partner) DIN:00089854 2. ARUNA SURANA (Designated Partner) DIN:01563414 Date: 26.05.2023 | Place: Delhi

(₹ Lakhs)

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC035140

Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001 TEL.: 011-43745000, E-mail: dsil@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2023

Consolidated

	1	Standarone					Consolidated					
SI.	PARTICULARS	Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended		
No.		31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	
1.	Total income from operations	54,142	57,935	65,754	2,36,781	2,14,588	54,158	57,950	65,769	2,36,843	2,14,646	
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	4,812		2,134	9,030	9,201	4,816	1,698	2,133	9,095	9,275	
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	4,812	1,659	2,134	9,030	9,201	4,816	1,698	2,133	9,095	9,275	
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3,207	1,103	1,622	6,026	6,573	3,153	1,132	1,620	6,016	6,624	
5.	Total Comprehensive Income {Comprising net profit / (loss) & Other Comprehensive Income/(Loss) after tax}	2,833	1,148	1,674	5,788	6,755	2,783	1,176	1,670	5,780	6,809	
6.	Equity Share Capital	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	
7.	Other Equity		35		68,181	63,698	*			69,927	65,452	
8.	Basic and diluted earnings per share (₹) (Not annualised) (Refer note 2)	3.69	1.27	1.86	6.93	7.56	3.62	1,30	1.86	6.92	7.61	

- 1. The figures for the last guarter are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third guarter of the financial year.
- Consequent to sub-division of the face value of the equity shares in the Company from ₹ 10 per share to 5 equity shares of ₹ 2 per share and commencement of trading in the sub-divided shares on 8 October 2021, earnings per share have been computed/restated for all the periods presented.
- 3. Apetition challenging the Preferential Issue of equity warrants by the Company filed by a shareholder before the Hon'ble Company Law Board (now National Company Law Tribunal), pending since November 2007, has been dismissed as withdrawn in the hearing held on 07.03.2023.
- 4. There has been ambiguity with regard to chargeability of UP VAT or GST on certain supplies made to a party and therefore no tax is charged on invoices raised for such supplies. The Hon'ble Allahabad High Court has held that no VAT is chargeable on such transactions. This matter is sub-judice before the Hon'ble Supreme Court. GST demand is raised on these transactions from July, 2017 which is contested and is adequately provided as provision for contingencies with corresponding reimbursement asset based on back-to-back undertaking by the party to indemnify for any liability that may
- This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 6. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors in its meeting held on 25 May 2023. The above financial results are available on the Company's website www.dcmsr.com and also on www.bseindia.com & www.nseindia.com.
- 7. The Statutory Auditors have audited the above results and have issued an unmodified opinion.

O DCM SHRIRAM

ALOK B. SHRIRAM Sr. Managing Director & CEO DIN: 00203808

For and on behalf of the Board

financiale

Place: New Delhi Date: 24.05.2023

DIN: 05332407

Date: 25 May, 2023

Place: New Delhi

New Delhi

यमा

कार्यक्रम

क्रियान्वयन

उपाध्यक्ष उ

गुरुवार को

स्तरीय समी

किया गया।

कार्यक्रम के

की प्रगति व

कहा कि

भीलवाड़ा र्

कलक्टर

भीलवाड़ा

कराया। सा कि जल

ग्रामीण आव परियोजनाउ

प्रगति हुई

मासिक क

का निर्देश ि

और मुख्य

बहुत शानद

पालामंत्री ।

साय क

ऐतिहासिक उर्ट

होने से बचाई

और पर्यटन ड

साथ ही विका

किए जाने चार

स्वच्छताः से न

कहा कि प्रधन

किए गए स्कृ

रखना आज

स्वच्छता.

पर्यावरण

तो सब व

और हमें बे

बडी है।

अपने मोह

को भी स

पूरी तरह 23

भी प्लास्टिnd

कर निश्चि to स्वच्छता ted

करना न

भारत स

रहा स्वन

प्रकार क

वैज्ञानिव

सभी

निकाय

जरूरत है। 13

देश उन

इस

बैठक

पंचांग राशिफल





सादड़ी जिला राजसमन्द 9928045062 9414354031 email jayjyotishratn@ gmail.com वेब www.jay.jyotish.ratn.in

26 मई. 2023

ज्येष्ठ शुवला सप्तमी शुक्रवार संवत् २०८० आश्लेषा नक्षत्र ध्रुव योग गर करण कर्क चन्द्रमा २०.४९ तक, शाके १९४५ ज्येष्ट, ५ सू. उ. ५.५२ अस्त १९.१२

मेष- धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान नहीं रहेगा, मानसिक शान्ति नहीं मिलेगी तथा कारोबार में उन्नति दिखाई नहीं देगी।

वृष- विरोध व संघर्ष मिट जाने से उत्साहित रहेंगे, व्यर्थ की पंचायती नहीं करेंगे तथा शत्रु भी मित्रं बन सकेंगे।

मिथुन- घर-परिवार में पारस्परिक प्रेम-व्यवहार रहेगा. अच्छे लोगों से मिलन होगा तथा नई योजना बना सकेंगे।

कर्क- व्यवसाय में लाभ व आय की कमी नहीं रहेगी, प्रिय समाचार मिलेंगे तथा सेहत

सिंह- शभ कर्मों के पति लगाव नहीं रहेगा विवाद, नहीं मिर्ट सकेंगे तथा सट प्रया



नीति गोपेन्द्र भट्ट

नई दिल्ली, 25 मई। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (एनएसएससी) के सदस्य, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एंबेसेडर और ड्रंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के के गुप्ता ने नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित टी वी चैनल को दिए विशेष इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मांग की है कि आजादी के अमृत काल में राजस्थान को स्पेशल हेरिटेज राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही स्वच्छता के लिए जिम्मेदार निकाय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असफल रहने पर दण्डित करने का सख्त कानून भी बनाया जाए।

केके गुप्ता ने बताया कि उन्हें माननीय स्थाई एवं अनवरत लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय झुंझुनू नगर परिषद झुंझुनू तथा नगर पालिका मंडावा और नवलगढ़ के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। इसके बाद उन्होंने पिछले कुछ महिनों से शेखावटी अंचल की इन निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ट्राफिक से निजात, आवारा पशु रोकथाम सहित इस क्षेत्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली विश्व प्रसिद्ध पुरानी हवेलियों के सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार का दायित्व संभाला है।

ओपन आर्ट गैलेरी के रूप में जाना जाता है तथा राजस्थान में मौजूद अनेकानेक हेरिटेज महत्व के स्थान देश दुनिया में मशहूर हैं । वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा पर्यटन की दृष्टि से भी अव्वल स्थान रखता है। राजस्थान में जितने पर्यटक आते हैं उसमें आधे से अधिक शेखावटी अंचल की प्राचीन हवेलियों को देखने आते हैं। किसी भी क्षेत्र के सर्वागीण विकास में पर्यटन व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यटन अपने आप में एक बड़ा उद्योग हैं। देशी-विदेशी पर्यटकों के आने से देश और प्रदेश के राजस्व की वृद्धि होने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है।

राजस्थान में चारों तरफ बिखरी अथाह हेरिटेज संपदाओं के संरक्षण के लिए न्याय मित्र के के गुप्ता ने सुझाव दिया क केन्द्र सरकार को राजस्थान को तत्काल स्पेशल हेरिटेज स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है और ऐसे अच्छे कालखंड में यदि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त होता है और पर्यटक अधिक से अधिक स्विधाओं के कारण यहां और अधिक संख्या में आकर्षित होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी इसके लिए एक विशेष कोष की स्थापना कर इस राशि का उपयोग पर्यटन विकास में किया जाना

के कें गुप्ता बताते हैं कि राजस्थान का शेखावाटी अंचल वह क्षेत्र है ऐसी

धरियावद थाने में दस्तावेज गुमशुदगी की प्राथमिकी

धरियावद, 25 मई। धरियावद नगर के स्टेट बैंक से गुरुवार को एक सहित अन्य दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया जिसे लेकर धा अभिमन्यु विशष्ट ने धरियावद थाने में दस्तावेज गुमशुदगी की प्राथमिकी द प्राथमिकी रिपोर्ट में प्रार्थी अभिमन्यु विशिष्ट ने बताया कि गुरुवार सुबह 1 अपनी पत्नी अंकिता एवं ढाई वर्ष के बच्चे के साथ स्टेट बैंक गया ज खाता में एफडी की मियाद पूरी होने पर जमा करवाने पहुंचे थे। इस दौरा का फार्म भरी थी उसी समय उनका ढाई वर्षीय बालक रोने लगा जि अभिमन्यु एक थेली जिसमे बैंक एफडी सहित अन्य सहायक दस्तावेज ध बैंक के राइटिंग काउंटर पर रखा इसी दरमियान थैली गायब हो गई। इ खोजबीन के बाद भी थेली का पता नहीं चला जिसके बाद प्रार्थी की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

धरियावद भाजपा ग्रामीण मंडल में आयोजित हुई कार्यसमि



धरियावद, 25 मई। भाजपा ग्रामीण मंडल कार्यसमिति की बैठव मंडल के मोर माता केसरियावाद में संपन्न हुई।जसपाल आंजना के मुख अध्यक्ष प्रताप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित और प्रदेश कार्यसमिति के लिए गए प्रस्तावों का समर्थन एवं नलावा बैठक में पार्टी संगठन के कार्य, एवं आगामी कार्य यो ों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा विस्तारक जोरा



CIN: U24201RJ1992PLC006657 Registered Office: E-260-261, Mewor Industrial Area, I Udaipur, Rajasthan-313003, Tel : 0294 2490242 E-Mail: corporate@sahpolymers.com, Website: www.sahpol

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & REMOT

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & REMOTINOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (*EGM*) EGM no: 01 Members of SAH POLYMERS LIMITED (the Company) will be held on Friday, the 23rd Ju P.M. at the registered office of the Company at E-260-261, Mewar Industrial Area, 313003 to transact the business as set for thin the Natice of EGM. The Company has sent the Notice of the EGM, only through electronic mode on 25th those Members whose email id addresses have been registered with the Company's E Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Link intime India Private Limited or with their respe Participants (Opensitory). as on the Cutoff date i.e. Friday , June 16, 2023 in com circulars /guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (*MCA Circulars*) Exchange Board of india (*SEBI Circulars*). The notice of the EGM is also available a website at www.schpalymers.com.

The Company pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companiand Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulation provided with the remote e-voting facility for enabling them to cast their votes elected the Companiant of the

and Administration) Rules, 2014 are given here under

(a) Statement that the business may be All the business resolutions of transacted by electronic means

Who tick calling EGM may be transacted by electronic means. (b) The date and time of Commencement of Commences on June 20, 2023 at (c) The date and time of end of remote e-voting Ends on June 22, 2023, at 5:00 p. June 16, 2023

(e) The manner in which persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice may obtain the login 1D and password

The statement that:

a) remote e-vating shall not be allowed beyond the date on June 22, 2023 Company shall provide voting facility at the EGM—through polling to those operated the meeting and have not casted their votes through remote e-votin

present at the meeting and nove mot casted mer your overstravoyn remote e-void () a member may participate in EGM, even after exercising his right to vote to voting but shall not be allowed to vote again in the EGM; d) a person whose name is recorded in the register of members or in the reg owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be en facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.

(g) Website address of the Company where The Notice of EGM is available notice of the meeting is displayed

Website: www.sahpolymers.co evoting Website www.evoting. helpdesk.evoting@cdslindia. 23058542/43

(h) Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to Floor, Marathon Futurex address the grievances connected with facility for voting by electronic means

hers who have not registered their email address are requested to register the